



सिंहेश्वर में जब्त नकली वॉल पुट्टी।

- नकली वॉल पुट्टी बेचने की मिल रही थी शिकायत, कंपनी के मैनेजर ने पुलिस बल के साथ की छापेमारी

कोरोना को लेकर परेशान जिलेवासियों के घर बनाने के सपने पर अब नकली मटेरियल बेचने वाले पानी फेर रहे हैं। इसका खुलासा मधेपुरा और सिंहेश्वर की दुकानों में पुलिस की मौजूदगी में जेके वॉल पुट्टी कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा की गई छापेमारी में हुआ। इसी क्रम में दोनों स्थानों से बड़ी संख्या में नकली जेके वॉल पुट्टी को जब्त कर केस भी दर्ज कराया और दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। बताया गया कि जेके वॉल पुट्टी कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि मधेपुरा जिले के विभिन्न स्थानों पर उसी ब्रांड का प्रिंट किया हुआ बैग में नकली वॉल पुट्टी की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इसके बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में सदर थाने की पुलिस की मौजूदगी में शहर के मेन रोड के हरिओम ट्रेडर्स पर छापेमारी की गई। इसी क्रम में दुकान के बगल स्थित गोदाम से नकली जेके वॉल पुट्टी का 35 पैकेट जब्त किया गया। मामले को लेकर कंपनी के मैनेजर सुनील कुमार ने केस दर्ज करने के लिए सदर थाने में आवेदन दिया है। सिंहेश्वर में दो स्थानों से नकली सामग्री जब्त : सिंहेश्वर में भी नकली जेके वॉल पुट्टी बेचने के आरोप में दो दुकानों पर कार्रवाई की गई है। यहां से बड़े पैमाने पर नकली जेके वॉल पुट्टी बेचने की शिकायत पर मैनेजर सुनील के नेतृत्व में वरिष्ठ जांच अधिकारी ओम प्रकाश के साथ एक टीम आई। टीम ने सिंहेश्वर पुलिस की मदद से धन्यवाद चौक पर गोपाल और मो. शकील की दुकान में छापेमारी कर क्रमशः 40 किलो वाली 18 पीस और 20 किलो की पांच बोरा नकली जेके वॉल पुट्टी बरामद की। मैनेजर ने बताया कि पुट्टी के बोरा पर एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, महीना और पता असली जेके वॉल पुट्टी से मेल नहीं खाया। उसका प्रिंट भी भिन्न पाया गया। दोनों दुकानदार कंपनी का नकली माल कहीं से लाकर बेच रहे थे। इस संबंध में थानाध्यक्ष रणवीर कुमार ने बताया कि मामले में केस दर्ज दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

Source:

<https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/madhepura/news/35-packets-of-counterfeit-wall-putty-seized-from-warehouse-128040488.html>